Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited



AN ISO/TS 16949:2009 Company CIN-L24231MP1979PLC049375

Regd. Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) INDIA Email Id - cs@cebbco.com, Website - www.cebbco.com, Tel- 07612661336

04.09.2020

To.

The Secretary,

Bombay Stock Exchange Limited,

25th Floor, P J Towers,

Dalal Street.

MUMBAI - 400 001

Fax No.022 2272 2061/022 2272

2041

The Secretary

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1 G

Block, Bandra Kurla Complex, Bandra

(East)

Mumbai 400051

8237/38. Fax No. 022-2659

66418124/25/26

Sub:- Publication of Notice / Intimation of Closure of Trading Window

Ref :- Scrip Code 533272

NSE:-CEBBCO

Dear Sir / Madam,

We have published the intimation regarding notice of Board Meeting and Closure of Trading window in Raj Express and Financial Express Newspaper (Jabalpur, M.P.) on 04.09.2020

Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.

This for your intimation and record

For COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO. LIMITED

Amit K'Jain

Company Secretary

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,

Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,

Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,

Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.

Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109

Factory (Unit VI) : Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st August, 2020 to enable the company to give effect for such

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change /status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below :-CELEBRATION GARDENS, NH-8 GURGAON

ROAD, NEAR SHIV MURTI NEW DELHI-110037 For & on behalf of Applicant SUREFIN INDIA LIMITED **PAMMI KAUR**

Date: 04.09.2020 Place: New Delhi

the Company, viz., www.tigerlogistics.in

2020 in view of COVID-19 pandemic.

support of the address of the Shareholder.

Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com

RAGHAV

PRODUCTIVITY

ENHANCERS LTD.

Date: 03.09.2020

Place: New Delhi

DIN: 00381428

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

CIN-L74899DL2000PLC105817

Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1,

New Delhi-110020.

Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671

Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlogs@tigerlogistics.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM") of the

Shareholders of Tiger Logistics Inida Limited ("the Company") will be held on September

29th, 2020 at 01.00 PM. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means

("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which will be e-

mailed to the Shareholders separately and also will be made available on the website of

Kindly note that Ministry of Corporate Affairs (vide General Circular no. 20/2020 dated

05.05.2020) and SEBI (vide Circular dated 12.05.2020) have granted exemption from

dispatching physical copies Notices and annual report to shareholders and also allowed

conducting Annual General Meetings (AGM) through electronic mode during the year

Manner of registering/updating their E-mail ID: Shareholders who have still not

Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in

physical mode and who have not updated their email address are requested to update their

email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz.

Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com, along with the copy of the l

signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy

of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-

attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in

2. Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested to

register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any gueries

difficulties in registering the e-mail address. Shareholders may write to Big Share Services

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com

INFORMATION REGARDING 11th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 11th Annual General Meeting ("AGM")of the Members of Raghav Productivity

Enhancers Limited("The Company") will be held at 3:00 P.M. on Wednesday, 30th

September 2020 through Video Conferencing ("VC") and audio Visual Means ("OAVM") in

compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 14/2020 dated April 08

2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of

Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA

Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1.

CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI circular, Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 ("Annual Report 2019-20"), will be sent only

through email to those members whose email address are registered with the Company

These documents will also be available on the Website of the company a

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-Voting") and

the Business set out in the notice of AGM may be transacted through E-voting . The

company has engaged CDSL to provide the facility of remote E-voting to the members and facility of the E-Voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM through

the CDSL E-Voting System. Members can access the same at www.evotingindia.com

under shareholder/member login by using remote E-Voting credentials. The process and

manner of remote E-Voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-Voting during

Members holding shares in physical form who have not registered their email id with the

Company/Depositories may obtain Annual Report and user id and password for e-voting

For Physical shareholders- please provide necessary details like folio no, name of

shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self attested), Aadhar

(self attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and

For Demat shareholders:- please provide Demat Account Details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID), Name, client master or copy of consolidated

Account statement, PAN (self attested copy of PAN) Aadhar (self attested) by e-mail to the

Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and Transfer Agent at

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006

Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com

Website- www.neccgroup.com

NOTICE

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs

(MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8,

2020 & circular dated April, 13th 2020 permitted the holding of AGM through

Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

upcoming AGM of the Company will be held on September 29, 2020 at 11.00

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for

the FY 2019-2020 has to be sent only by electronic mode to those Members

whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The

Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its

If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with Annual Report for the FY 2019-2020 and login details for e-

voting shall be sent to your registered email address. In case you have not

registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for the FY

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the

Holding Company, MAS Services Limited at info@masserv.com

providing Folio number. Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self

attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested

Please send your bank details with original cancelled cheque to

our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla Industrial

Area phase-II, New Delhi 110020 along with letter mentioning folio

Please contact your Depositary Participant (DP) and register

Please also update your bank detail with your DP for dividend

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

your email address as per the process advised by DP.

The Notice of AGM and Annual Report for the FY 2019-2020 will also be

available on Company's website at www.neccgroup.com and website of BSE

at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Members attending

the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum

payment by NACH if declare by company.

scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

("SEBI Circular"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

www.rammingmass.com and stock exchange at www.bseindia.com

AGM, has been provided in the notice of AGM.

Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com

by providing necessary details:

ujata@bigshareonline.com

Date: 03 September, 2020

A.M. through VC/OAVM.

Holding

Place : Delhi

Members similar to earlier practices.

2019-2020 and login details for e-voting.

no. if not registered already.)

under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Place: Jaipur

For Tiger Logistics (India) Limited

Managing Director (DIN-00147977)

A-10 Central Spine, Alankar Plaza,

Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023

CIN: L27109RJ2009PLC030511

Reg. Office: Office No.36,

Harpreet Singh Malhotra

By order of Board

Neha Rath

For Raghav Productivity Enhancers Limited

(Company Secretary) ACS:38807

registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email Id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Unaudited Financial Results for the First guarter ended 30th June, 2020.

For R R Financial Consultants Limited Place: New Delhi Rajat Prasad Managing Director Dated: 03rd September, 2020

Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we

are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, 10th

September, 2020 at 12:00 p.m at the registered office of the Company for considering the

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. Regd Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) 482001 CIN: L24231MP1979PLC049375

Notice is hereby given that the 4th meeting of the Board of Directors for the Financial Year 2020-21 (04/2020-21) of the Company will be held on Thursday, 10th Day of September 2020, at 17:00, through Audio Visual means, interalia, to consider, approve and take on record Statement of Unaudited Results

June 2020 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, NSE Circular No. NSE /CML/2019/11 and BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 2nd April, 2019, the trading window in respect of the Company's securities remain closed for designated persons, their immediate relatives and the persons with whom they have material financial relationship. The trading window will open after 48 hours of declaration of financial results for

Company Secretary

INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED

of Directors of the company will be held on Friday. 11th September, 2020 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2020, pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. A copy of the said notice shall also available at the Company's website at www.angelsenter.com and

Regd Office No:11 Wood Villa 2nd Avenue. Bandh Road Chandan Haula. New Delhi-110074 CIN:L65910DL1990PLC041750 NOTICE

Finex Limited, 30th Annual General Meeting will be held at 11, Wood Villa, 2nd Avenue, Bandh Road, Chandan Haula New Delhi-110074. India on wednesday, 30th, September 2020 at 10:00 AM. to transact the business mentioned in the notice convening the said Annual General Meeting is being posted to the members individually at their registered addresses A Member entitled to attend and vote

vote instead of himself and a proxy need not be a member Notice is hereby given pursuant to section- 91 of the companies act, 2013, that the register of members and the share Transfer books of the Company will remain Closed from 20th September to 28 September 2020 (both days inclusive) For Tinna Finex Limited

Place : Delhi **VIJAY SHEKHRI**

Place: New Delhi Date: 4th Sep 2020 **Director** STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: Office No-103, 1st Floor, Plot No.2. Triveni Complex, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi - 110092 Email id: edynamicssolutions@yahoo.com

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, 11" September, 2020 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ende 30th June, 2020, Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

SATENDER KUMAR Date: 03.09.2020 Vikas Saini DIRECTOR Place : New Delhi

CIN: L74899DL1985PLC020194

Reg. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag Chandni Chowk, Delhi-110006 Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222 Website: www.sriamarnathfinance.in

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

at 10:00 A.M. at A-73/1, G T KARNAL ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110052 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2019-20 on September 03, 2020 through electronic mode to the members whose 'email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website (www.sriamarnathfinance.in)

statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes or all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting provided by NSDL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 22nd September, 2020 ("Cut-off date"). The remote E-Voting period commences on Friday, 25th September, 2020 (9:00 am) and

ends on Sunday, 27th September, 2020 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling pape shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast thei vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open

for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM of 'the Company. 'Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch

of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by th the AGM on the website of the Company viz www.sriamarnathfinance.in, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM Members are also informed that In case of any gueries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available at the 'Downloads section of www.evoting.nsdl.com. For any further grievance related to the remote e-voting members may call on the toll free no. 1800222990 or contact Ms. Pallavi Mhatre Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated e-mail ids: evoting@nsdl.co.in or AmanG@nsdl.co.in or at telephone no. 022-24994545/ 1800-222-990,

> Rakesh Kapoor (Managing Director

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

CIN: L74899DL1995PLC064215 Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia, Email id: cs@mohindra.asia, Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444 NOTICE OF THE 26[™]ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & E-VOTING AND

BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that:

29"September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio Visual Means 'OAVM' to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM, without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and Listing Regulations, 2015 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and the SEBI Circular dated May 12, 2020. In compliance with the MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for 2019-20 have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfe Agent. Members of the Company holding shares either in

physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 28th August, 2020 have been

received the Annual Report along with notice of 26" AGM for the financial year 2019-20 through email

only. The same is also available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the

1. The 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday,

Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. The members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM on the virtual platform provided by RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited and the instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting and Voting during the AGM will be provided in the Notice. Members are requested to kindly view the same. 3. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and subsequent amendments thereto and SEBI(LODR) Regulations, 2015, all the Members are hereby informed that a

person whose name is registered as member and are holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Tuesday, September 22, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-voting system available during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). Members may note the following information: Date of completion of sending of Annual Report to the September 03, 2020 (Thursday)

members including the Notice of AGM through email only The Cut-off date & Record date for determining the September 22, 2020 (Tuesday)

eligibility of the members to vote electronically and for final dividend if any declared at the 26" AGM. Date and time of commencement of remote e-voting From 09:00 A.M. September 24, 2020 (Thursday) Date and time of end of remote e-voting Upto 05:00 P.M. September 28, 2020 (Monday)

and once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM 5. Members who have acquired shares and becomes a member of the Company after sending of the Notice and

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the above mentioned date and time for voting

the Annual Report through electronic mode and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020(Tuesday), may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in / compliances@skylinerta.com by mentioning their folio no./Dp id & Client id. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. The Company has appointed Mr. Anand Kumar Singh, Partner of M/s Anand Nimesh & Associates, Practicing.

Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting or e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. 7. In case of any queries related to remote e-voting / e-voting, the members may refer to the Frequently Asked

Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Pallavi Mhatre, Manager NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800-222-990 or to Company Secretary of the company at 304 Gupta Arcade, Inder Enclave Delhi-Rohtak Road, New Delhi-110087, contact at 011-46200400 or email address: cs@mohindra.asia_or to Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limitedat +91- 11-

40450193-97 or email address: compliances@skylinerta.com. 8. NOTICE IS FURTHER given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, September23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days Inclusive) for the 26"AGM of the Company.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited Nidhi Pathak

Date: 03.09.2020 Place : New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office: 8/28, WEA ABDUL AZIZ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

CIN: L74899DL1987PLC027057 Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and three Months ended 30th June, 2020

Date: 03.09.2020

(Rs. in Lakh, except per share data) **Quarter Ended**

Particulars	3 Months Ended	Preceeding 3 Months Ended	Preceeding 3 Months Ended in the Previous Year	Year ended	
	01.04.2020	01.01.2020	01.04.2019	01.04.2019	
	То	То	То	То	
	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	
Income					
Revenue from Operations					
(i) Interest Income	9.29	4.07	10.84	36.47	
(ii) Fees and Commission Income	0	0	0	0	
I. Total Revenue from Operations					
II. Other Income		4.07	40.04	20.47	
III. Total Income (I+II)	9.29	4.07	10.84	36.47	
Expenses (i) Finance Costs	2.52	2.31	2.32	9.26	
(ii) Fees and Commission Expenses	2.02	2.01	2.02	5.20	
(iii) Purchase of stock in trade		_		_	
(iv) Changes in inventories of finished goods work in					
progress and stock-in-trade	_	_		-	
(v) Net Loss or derecognition of Financial Instrument	-	-	-	-	
(vi) Impairment of Financial Instruments	-	-	-	-	
(vii) Employee Benefits Expense	3.01	3.05	2.41	11.27	
(viii) Depriciation and Amortisation Expense	-	-	-	-	
(ix) Other Expenses (Any item exceeding 10% of the total					
expenses relating to continuing operations to be shown					
separately)	0.61	5.05	2.81	12.85	
IV. Total Expenses	6.14	10.41	7.54	33.38	
V. Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV)	3.15	(6.34)	3.30	3.09	
VI. Exceptional items VII. Profit/(Loss) before Tax (V-VI)	-	(6.34)	3.30	3.09	
VIII. Tax Expense:		(0.34)	3.30	3.09	
(i) Current Tax	0.82	(1.69)	0.86	0.76	
(ii) Deferred Tax(Net)	0.02	(1.00)	0.00	-	
IX. Profit/(Loss) for the period from continuing					
operations (VII-VIII)	2.33	(4.65)	2.44	2.33	
X. Profit/(Loss) from discontinued operations	-	· · ·	-	-	
XI. Tax Expenses from discontinued operations	-	-	-	-	
XII. Profit/(Loss) from discontinued operations					
(after tax) (X-XI)	-	-		-	
XIII. Net Profit/(Loss) for the period (IX+XII)	2.33	(4.65)	2.44	2.33	
Other Comprehensive Income					
A. Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	
(i) Reimbursement Gain /(Loss) of the Defined Benefit Plan	-	-	-	-	
(ii) Net Gain on equity Instrument designated at FVOCI for					
the year (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified		_			
to profit or loss		_		_	
B. Items that will be reclassified to profit or loss.	_	_		_	
(I) Income Tax relating to items that will be reclassified to					
profit or loss	-	-	-	-	
XIV. Total other Comprehensive income (A+B)		-		-	
XV. Total Comprehensive income (XIII+XIV)	2.33	(4.65)	2.44	2.33	
Non Controlling Interest				-	
XVI. Net Profit/(Loss) after Tax and Minority Interest	2.33	(4.65)	2.44	2.33	
XVII. Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	400.01	400.01	400.01	400.01	
XVIII. Other Equity				4.25	
XIX. Earnings Per Share (EPS) on Face Value Rs. 10/-	0.05	0.15	0.06	0.06	

Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing facility to its members to exercise their right to vote by electronic means in respect of the agenda items enlisted in the AGM Notice through remote e-voting facilities provided by R&TA https://instavote.linkintime.co.in. The remote e-voting period commences on Sunday, 27th September, 2020 (IST 9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 29th September, 2020 (IST 5.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by R&TA for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time. During this intervening period, only those members of the Company, holding shares either in electronic or physical mode, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23th September, 2020, shall be entitled to cast their vote electronically through remote e-voting or voting in the said AGM by attending the AGM on Wednesday 30th September, 2020 at 11 A.M. through VC/OAVM i.e. instameet https://instameet.linkintime.co.in. The procedure of e-voting and instruction for process and manner for attending AGM through instameet has been

mentioned in the Notice of AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at A.G.M. Once a vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link https://instavote.linkintime.co.in

issues regarding remote e-voting, please refer the e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under

Members already registered with R&TA for e-voting, their existing login ID and password is to be used for e-voting. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the despatch of notice and holding

shares of the Company as on cut-off date; may contact https://instavote.linkintime.co.in for obtaining login ID and password. For any grievances / queries regarding e-voting members may contact R&TA e-voting helpdesk at https://instavote.linkintime.co.in or to our R&TA at enotices@linkintime.co.in or Mr. Swapan Naskar, AVP(North India Operation) at 022-491860000 (Address: M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Noble Heights, 1" Floor, NH-2, C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110 058). Shri Surrinder Kishore Kapahi, Practising Company Secretary (Membership No. 1407 and CP No. 1118), New Delhi has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting and e-voting at the A.G.M. in fair and transparent manner. Members who have not yet registered their e-mail id or who want to change their e-mail ID are requested to approach their respective DPs. Member(s) are requested to keep their e-mail ID validated with their DP/R&TA, so as to receive all

Attention of the members is drawn to Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20/04/2018, which require shareholders holding shares in physical form

and whose folio(s) do not have complete details relating to their PAN and bank account, or where there is any change in the bank account details provided earlier, to compulsorily furnish the details to R&TA/Company for The Shareholders who are holding shares in Physical form are requested to dematerialise their Physical Shareholdings.

For Ansal Buildwell Ltd.

Sd/-

Mamta Bisht Company Secretary & Compliance Officer

For North Eastern Carrying Corporation Limited

on 3rd September 2020. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

Date:03.09.2020

Place: New Delhi

(a) Basic

Notes:

(b) Diluted

2- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary 3- Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019. 4-The Company has consider the possible effects of COVID-19 on the carrying amounts of Property, Plant and Equipment, Investments Inventories, Trade Receivable and Other Current Assets. In developing the assumptions relating to the possible future

1- The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held

0.05

0.05

0.15

0.15

uncertaintiestihne economic conditions because of this pandemic, the company, as at the date of approval of the financial results, has used external and internal sources of information/ indicators to estimate the future performance of the Company. Based on current estimates the Company expects the carrying amount of these assets to be recovered. The impact off ithe COVID-19 on the Company's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these results. On Behalf of the Board For Standard Capital Markets Limited]

Kishore Kargeti

0.06

0.06

(Director) Date: 03.09.2020 DIN:00095763

Place: New Delhi

0.06

0.06

BUILOWELL

Date : 04.09.2020 financialexp.ep

NOTICE

for the Quarter ended 30th June, 2020 and other business matters. Further in continuation of our intimation on closure of trading window Dated 30th

the Quarter ended 30th June, 2020. For Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd

Place: Jabalpur Amit Kumar Jain Date: 03.09.2020

Regd. Office: Office No. JF-01, Property No. F-40, Jagat Puri, Delhi - 110040, Email Id: angelsenterpriseslimited@yahoo.com CIN: L51909DL1990PLC042445 Notice is hereby given that a Meeting of the Board

on stock Exchange website at www.bseindia.com

Place: New Delhi

Notice is hereby given that the Tinna

For Inceptum Enterprises Limited VINAYA PRAKASH DIRECTOR

Tinna Finex Limited

entitled to appoint a proxy to attend and

EDYNAMICS SOLUTIONS LIMITED MONEYTECH FINLEASE LIMITED Regd. Office: 829/2, Laxmideep Building 8th Floor, District Centre, next to V3S Mal Laxmi Nagar, New Delhi -110092 CIN: L65910DL1984PLC018732 Email id: moneytechfinlease@gmail.com

isting Obligations and Disclosures Requirement)

& www.cse-india.com.

DATE: 03.09.2020

PLACE : DELHI

FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020

ursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI egulations, 2015, Notice is hereby given that the Board Meeting of the Company will be held on Friday 11th September, 2020 at the Registered

CIN: L74900DL2000PLC106755 Office of the company at 829/2, Laxmideep sulding, 8th Floor, District Centre, next to V3S Mall, Laxmi Nagar New Delhi -110092 to consider and approve the Unaudited Financial Results for he guarter ended 30° June . 2020.

A copy of the said notice shall also available at the A copy of the said notice shall also be available at Company's website at www.edynamicssolution.com the company's website at www.moneytechfin.com and on stock Exchange website at and on stock Exchange website at www.msei.in www.bseindia.com For Edynamics Solutions Limited MONEYTECH FINLEASE LIMITED

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Members of SR AMARNATH FINANCE LIMITED will be held on Monday, 28th day of September, 2020

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Th Companies (Management & Administration) Rules, 2014("the Rules') including any

of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members Depositories as on cut-off date ie. 22nd September, 2020 can view the notice convening

For SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

AN ISO 9001: 2008 CEPTIFIED CONTINUED. Year ended

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225 Regd. Office: 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 Ph.: +91-11-23353051, 23353052, Fax: +91-11-23310639, 23359550 E-mail: info@ansalabl.com, Website: www.ansalabl.com

NOTICE OF THE 36™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on

Wednesday, 30th September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P02020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circular), companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated June, 29, 2020. Annual Report (AR) for the year 2019-2020, inter-alia, containing the Notice of the AGM setting out the business to be transacted thereat and Audited Financial Statements (including Consolidated Financial Statements) of the Company for the Financial Year ended 31" March, 2020 and the Report of Auditors and Directors Report has been sent to the members of the Company through electronic mode via e-mail whose e-mail ID is validated/registered with the Depository Participant (DP) or M/s Link Intime India (P) Ltd. (R&TA) and through permitted mode to other members at their registered addresses. The full text of Notice of the meeting and above documents is also displayed on the websites of the Company i.e. www.ansalabl.com and R &TAM/s Link Intime India Private Ltd. https://instavote.linkintime.co.in and can be inspected at the Registered Office of the Company on all working days (excluding Saturdays and Public Holidays) during business hours. Any member who wishes to have physical copy of the Annual Report and who have not received the same, may write to the Company. The despatch of Notice of A.G.M. and Annual Report has been completed on 3" September, 2020.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (the 'Rules') and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (SEBI Regulations) Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday the 24" September, 2020 to Wednesday, 30"September, 2020 (both days inclusive) to determine the entitlements of Members to attend the above A.G.M. In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. In case of any queries or

communication electronically including annual report, notices, circulars, etc. sent by the Company from time to time.

registration/updation. No request for transfer of shares in Physical form (except in case of transmission or transposition of securities) can be

processed by the Company/R &TA in view of SEBI Circular.

New Delhi

(Ashok Babu) Sr. V.P. & Company Secretary FCS No.: 2328

एक्सप्रेस न्यूज

डीएचएफएल में 17394 करोड का फर्जी लेन-देन

नई दिल्ली। कर्ज में डूबी आवास ऋण देने वाली डीएचएफएल में वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 के दौरान 17394 करोड़ रुपए के कथित तौर पर गलत तरीके से लेन-देन किये गए। ऑडिटर ग्राथोर्नटन ने यह बात उटाई है। इस साल की शरूआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के तहत नियुक्त दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएचएफएल के प्रशासक ने कंपनी के मामलो की जांच के लिये ग्रांट थोर्नटन की सेवा ली। पिछले साल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने कंपनी को ऋण शोधन समाधान के लिये स्वीकार किया था। पीठ ने इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ आरएस कुमार को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया था। डीएचएफएल ने सूचना में कहा कि शुरूआती अनुमान में संबंधित लेन-देन 14046 करोड़ रुपए का आंका गया है। यह अनुमान एनसीएलटी के समक्ष पेश आवेदन में शामिल है। 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार यह राशि कंपनी के बही-खाते में बकाये के रूप में है। इसके अलावा 3348 करोड़ रुपए का नुकसान कुछ इकाइयों को दिये गये कर्ज पर कम ब्याज लगाने के कारण हुए नुकसान में रूप में अनुमानित है।

एफडीए ने मायलन को चेतावनी जारी की

नर्ड दिल्ली। अमेरिकी खाद्य एवं दवा नियामक ने मायलन लैबोरेटरीज लिमिटेड के तेलंगाना स्थित संयंत्र को चेतावनी पत्र जारी की गई है। यह चेतावनी पत्र सिक्रिय दवा सामग्री के लिए बनाए गए गुणवत्ता के मानक सीजीएमपी से विचलन के लिए जारी किया गया है। अमेरिकी दवा नियामक ने एक सितंबर को जारी पत्र में कहा कि एफडीए जांच के दौरान संयंत्र में किमयां पाई गईं, वहां सामग्रियों को दिषत होने से रोकने के लिए पर्याप्त सफाई के इंतजाम नहीं थे और ऐसे में एपीआई की गुणवत्ता बदल सकती है। एफडीए ने 24 फरवरी से 28 फरवरी 2020 के बीच इस संयंत्र का निरीक्षण किया था।

आरसीसीपीएल ने बांटे पौधे

नई दिल्ली। आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, एमपी बिरला ग्रंप आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन्ही कोशिशों को अग्रसर करते हुए आरसीसीपीएल ने निकट ग्रामों के किसानो की कमाई को बढ़ाने हेतु फलदार वृक्षों के पौधे बांटे। कोविड–19 के चलते सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए बायफसंस्था के साथ आरसीसीपीएल ने 10 किसानों को पौधे बांटे। सभी किसानों ने आपस 2 गज की दूरी बनायीं रखी। कार्यक्रम की शुरुआत में सबक हाथ साबुन से धुलवाए गए। बायफ केंद्र, ग्राम सढेरा में हुए कार्यक्रम में आरसीसीपीएल अधिकारियों ने कोरोना से बचने के उपाय बताये। ग्राम सढेरा आरसीसीपीएल के माइंस क्षेत्र के समीप है और एकीकत इकाई मैहर के पास है। सीएसआर प्रतिनिधि आरसीसीपीएल ने बताया कि किसानों की बेहतर कमाई के उद्देश्य से फलदार पौधे बांटे गए हैं।

ब्रांड फैक्टरी में रॉक बॉटम डेज शुरू

नई दिल्ली। ब्रांड फैक्टरी ने रॉक बॉटम डेज की शुरुआत की है। इस दौरान ब्रांड फैक्टरी पसंदीदा फैशन ब्रांड्स जैसे हाईलैंडर, रॉग, क्रोकोडाइल, टिवल्स, कूल कलर्स, कलर्स, टर्टल, पेपे जीन्स, क्रिम्सॉन क्लब, सेलियो, द प्रिविलेज क्लब, बेयर लेजर, नाइटहुड, जॉन मिलर, बफेलो, इंडिगो नेशन और ली कूपर पर बेहतरीन ऑफर्स की पेशकश करता है। ब्रांड फैक्टरी के सीईओ सुरेश साधवानी कहते हैं, यह ऑफर्स 2 से 6 सितंबर तक उपलब्ध हैं। रॉक बॉटम डेज के दौरान १६९९ रुपए और उससे कम कीमत वाले शटर्स सिर्फ 1699 रुपए में तीन खरीद सकते हैं। 1700 रुपए से 2299 रुपए के एमआरपी वाले शटर्स 1699 रुपए में दो खरीद सकते हैं और 2300 रुपए से ज्यादा कीमत वाले शटर्स पर फ्लैट 50 फीसदी की छुट दी जा रही है। 200 से भी अधिक ऑरिजिनल ब्रांड्स में से खरीदारी करने पर 20 से 70 फीसदी तक की छूट दी जा रही है।

सेवा क्षेत्र में सुधार के बावजूद गिरावट

हालात अभी भी चिंताजनक, संकुचन की अवस्था बरकरार लगातार छठे महीने

नर्ड दिल्ली । कोरोना वायरस महामारी के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जारी गिरावट अगस्त में कुछ थमी, लेकिन यह अभी भी संकुचन की अवस्था में बनी हुई है। अगस्त में थोडी सुधार के बाद भी सर्विस सेक्टर का इंडेक्स लगातार छठे महीने गिरावट के दायरे में बना हुआ है। एक मासिक सर्वेक्षण ने गुरुवार

को बताया कि महामारी के चलते प्रतिबंधों ने ग्राहकों की मांग और कारोबार के संचालन पर प्रतिकल असर डाला है। मौसमी रूप से समायोजित भारत सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक अगस्त में बढ़कर 41.8 पर पहुंच गया। यह सूचकांक जुलाई में 34.2 था। यह मार्च में कोरोना वायरस महामारी के फैलाव के बाद सबसे अधिक है। हालांकि, भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अगस्त के दौरान लगातार छठे महीने संकचन देखने को मिला। आईएचएस मार्किट इंडिया के सर्विस पर्चेसिंग



मैनेजर्स सूचकांक पीएमआई के मृताबिक 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही हैए जबकि 50 से कम अंक कमी या संकुचन को दर्शाता है। आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री श्रीया पटेल ने कहा कि अगस्त के आंकडे भारतीय सेवा क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाते हैं। घरेल और विदेशी बाजारों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का इन गतिविधियों पर भारी असर पड़ा है।

-	492	
-	पिछले छह	माह से
Γ		
	संकुचन व	०। १स्थात
ſ	जनवरी	55.5
Ī		
t	फरवरी	57.5
Ī	मार्च	49.3
Ţ	अप्रैल	5.4
İ	मई	12.6
ī i t	जून 🏸	33.7
l 1	जुँलाई	34.2

अंगस्त

छंटनी जारी

सर्वेक्षण के मृताबिक कंपनियों ने कम व्यावसायिक गतिविधियों के कारण लगातार छठे महीने छंटनी की सुचना दी है। पटेल ने कहा कि उत्पादन और नए ठेके में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई कंपनियां परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं। आमदनी घटने और लागत बढ़ने की वजह से कंपनियों ने मार्च के बाद पहली बार अपनी सेवाओं की कीमत बढाई। पटेल ने हालांकि कहा कि सर्विस सेक्टर में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। कारोबारी माहॉल न्यूट्रल हो गया है, जबकि इससे पहले के तीन महीने में यह नकारात्मक जोन में था। साथ ही कर्मचारियों की छंटनी मार्च के बाद सबसे कम हुई है।

15 साल के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर परियोजनाएं रुकीं

आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 साल के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर परियोजनाएं अवरुद्ध हुई हैं। इस बीच सेवा और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों की हालत बताने वाला कंपोजिट पीएमआई आउटपूट इंडेक्स जुलाई के 37.2 से उछलकर अगस्त में 46 पर आ गया। यह लगातार पांचवें महीने गिरावट के दायरे में बना हुआ है। आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त में 52 पर पहुंच गया, जो जुलाई में 46 पर था। इसका मतलब यह हुआ कि विनिर्माण क्षेत्र में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

एसबीआई कर्मचारियों को दे रहा वीआरएस का ऑफर

बैंक को हो सकती है 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस की घोषणा की है। योग्यता के तहत कुल 11565 अधिकारी और 18625 कर्मचारी इस स्कीम के लिए योग्य हैं। बैंक को नई वीआरएस से लगभग 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत का अनुमान है। एसबीआई ने सेकंड इनिंग टैप वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम एसआईटीवीआरएस-2020 के अंतर्गत मानव संसाधन और लागत में सुधार का लक्ष्य रखा है। नई स्कीम के तहत योग्य कर्मचारी हर साल वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया हर साल एक दिसंबर से जनवरी के बीच होगी। नए वीआरएस के तहत बैंक के कुल 11 हजार से ज्यादा अधिकारी और 18 हजार से अधिक कर्मचारी योग्य माने गए हैं। जो कर्मचारी योजना को चुनाव करेंगे, उन्हें नौकरी की बाकी बचे अवधि तक 50 फीसदी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। बैंक को अनुमान है कि अगर 30 फीसदी कर्मचारी योजना का चुनाव करते हैं तो इससे बैंक को करीब 2170 करोड़ रुपए के बचत होगा। बता दें कि मार्च 2020 तक बैंक में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। ज्यादातर बैंक कर्मचारी जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, वे घर से ही काम करने की इच्छा रखते हैं।

डीजल के दाम 32 दिन बाद घटे

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को 32 दिन के अंतराल के बाद डीजल के दाम में कटौती की है। तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में डीजल की कीमत 16 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में पांच पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इंडियन ऑयल के अनुसार चार बडे महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमश: 82.08 रुपए. 83.57 रुपये. 88.73 रुपए और 85.05 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रही।

सहारा के विरुद्ध नेटिएलक्स की याचिका खारिज

नर्ड दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने नेटिंपलक्स द्वारा दाखिल की गई एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अररिया, बिहार के सिविल न्यायालय द्वारा 28 अगस्त को पारित किये आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें नेटिफ्लक्स और इसके निर्माताओं, निदेशकों, कर्मचारियों, अधिकारियों व सहयोगियों को आदेश दिया गया था कि वे बैडब्वॉय बिलियनेयर्स सीरीज व प्रोमो को किसी भी माध्यम से जनता में जारी, प्रेषित, वितरित, प्रदर्शित, मंचित या सचित नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स ने एक ट्रांसफर याचिक दाखिल की है, परन्त इस पर कोई राहत फिलहाल नहीं दी गई है।

सहारा समूह इकाई और सहारा के एक सेक्टर मैनेजर ने यह इनजक्शन सूट दाखिल किया था कि नेटिंपलक्स को उक्त सीरीज जारी करने से रोका जाए, जोकि उनके चेयरमैन और व्यावसायिक इकाइयों के विरुद्ध है। जो न केवल मानहानि करती है अपितु उनकी कम्पनी की निजता और ट्रेडमॉर्क्स को भी ठेस पहुंचाती है। सहारा ने भी नेटिपलवस और इसके निदेशकों अभिषेक नाग, रेजिनाल्ड शॉन टामसन, नेहा सिन्हा और निर्माताओं निक रीड, रेवा शर्मा, इकबाल किदवई के खिलाफसूचना तकनीक एक्ट २००० इंडियन पीनल कोड व देडमावर्स एक्ट के अंतर्गत विभिन्न आपराधिक जुर्म करने का हवाला देते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई हैं। मजिस्ट्रेट ने उनकी शिकायत पर अपराधों का संज्ञान लिया और गवाहों की गवाही दर्ज कराई। संभव है कि कोर्ट नेटिएलक्स के अधिकारियों को सम्मन जारी करे।

ऋण पुनर्गठन योजना तैयार करें बैंक

41.8

नर्ड दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 15 सितंबर तक ऋण पुनर्गठन की योजना तैयार करने के लिए कहा है ताकि किस्त अदायगी से छुट की मोहलत समाप्त होने के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वाणिज्यिक बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि ऋणदाता संस्थान 15 सितंबर तक न सिर्फ समाधान योजना तैयार करें बल्कि उसे अपने निदेशक मंडल से मंजूर भी करायें। पात्र खुदरा एवं कारोबारी ग्राहकों के ऋण के पुनर्गठन से एक तरफ उन पर दबाव नहीं पड़ेगा तो दूसरी तरफ बैंकों के खाते पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि किस्त अदायगी में छूट समाप्त होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ग्राहकों को परेशानी न हो।

ऋण को पूंजी में बदलने के बाद दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी

एनसीएलएटी ने कहा, निवेश वित्तीय कर्ज नहीं हो सकता

नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी कानन अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कहा है कि ऋण को कंपनी की इक्विटी की तरह पूंजी में बदलने के बाद दिवालिया प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि कोई भी निवेश वित्तीय ऋण नहीं हो सकता है और किसी वित्तीय ऋणदाता द्वारा सीआईआरपी की शुरुआत के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा सात के प्रावधान सिर्फ तभी लागू हो सकते हैं, जब मामले में कोई ऋण और देनदारी से चुक हो।सीआईआरपी कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ ही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 26 नवंबर, 2019 को रीता कपूर की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस याचिका में इन्वेस्टर्स केयर रियल एस्टेट एलएलपी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। कपूर का दावा था कि वह कंपनी में किए गए निवेश के आधार पर वित्तीय ऋणदाता थीं और कंपनी ने कथित रूप से उन्हें वापस भुगतान करने में चूक की और ऋण

को इक्विटी में बदल दिया। इस याचिका पर सनवाई के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा सात का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि एक बार ऋण को पूंजी में बदल दिया जाए तो इसे वित्तीय ऋण और अपीलकर्ता को वित्तीय ऋणदाता नहीं कहा जा सकता है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि इसलिए अपील को खारिज किया जाता है, हालांकि न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर अपील करने की इजाजत दी।

टाटा मोटर्स की बिक्री 13 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने गुरुवार को कहा कि अगस्त में उसकी कुल बिक्री 13.38 प्रतिशत बढकर 36472 इकाई हो गई। कपनी ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले साल की समान अवधि में 32166 इकाइयों की बिक्री की थी। टाटा मोटर्स ने बताया कि अगस्त में घरेलू बिक्री 21.6 प्रतिशत बढ़कर 35420 इकाई रही, जो पिछले साल अगस्त में 29140 इकाई थी। इस दौरान घरेल बाजार के यात्री वाहन खंड में बिक्री दोगने से अधिक बढ़कर 18583 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 7316 इकाई थी। हालांकि, इस दौरान कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 28 प्रतिशत की कमी हुई।

आसियान देशों से कागज आयात में बेतहाशा वृद्धि



रत्न एवं आभूषण का निर्यात घटने का अनुमान

प्रतिशत घटने का अनुमान है। इसकी वजह कोविड19 संकट के कारण लागू

लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में कारोबार नहीं होना है। रत्न एवं

आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद जीजेईपीसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी

दी। जीजेईपीसी के अध्यक्ष कोलिन शाह ने कहा, महामारी फैलने पर अंकश

लगाने के लिए भारत के साथ-साथ आयातक देशों में पर्ण लॉकडाउन के

कारण चालु वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून के दौरान कारोबार पूरी

तरह बंद रहा। उन्होंने कहा, जैसे-जैसे हालात सुधर रहे हैं, निर्यात में सुधार हो

रहा है। लेकिन पहली तिमाही के कारोबार के ठप रहने का पूरे वित्त वर्ष पर

असर पड़ेगा। विनिर्माण प्रतिबंधों के कारण अगली दो तिमाहियां चुनौतीपूर्ण

बनी रहेंगी। हमें वित्त वर्ष 2020-21 में रत्न और आभूषण निर्यात में 25-

30 प्रतिशत गिरावट की संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में मांग है लेकिन इस साल विनिर्माण संबंधी चुनौती रहेगी क्योंकि बहुत सारे

कामगार अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हम

29.08.1

सडक

मांग के अनुरूप विनिर्माण तेज कर सकते हैं।

2020 PWDRB

G-13632/20

मुंबई । देश का रत्न और आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष में 25-30

कागज आयात २९ हजार टन से बढ़कर ३४३ हजार टन पर पहुंचा

नई दिल्ली । कागज उद्योग के एक संगठन ने आसियान देशों से कागज आयात में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले नौ साल में आसियान देशों से कागज आयात 29 हजार टन से बढ़कर 343 हजार टन पर पहुंच गया। इंडियन पेपर मैन्यफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत-आसियान एफटीए मक्त व्यापार समझौता की मंत्रालय को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने पेपर एवं पेपरबोर्ड आयात को नकारात्मक सूची में डालने की अपील की, ताकि स्थानीय कागज विनिर्मताओं को प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिल सके। उसने कहा कि अभी आसियान देशों से

विशेष तौर पर लिखने और छपाई के कागज का बेतहाशा आयात हो रहा है। आईपीएमए ने कहा कि एक जनवरी 2010 को आसियान भारत एफटीए प्रभावी होने के बाद और भारत में बेसिक कस्टम ड्यूटी लगातार कम करते हुए शून्य कर दिये जाने के बाद से आसियान देशों से कागज और गत्ते का आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। उसने कहा कि आसियान देशों से कागज और गत्ते का समीक्षा का स्वागत किया। वाणिज्य एवं उद्योग आयात 2010-11 में 29 हजार टन था, जो 2019-20 में 1100 प्रतिशत बढ़कर 343 हजार टन पर पहुंच गया है। भारत के कल कागज आयात में आसियान देशों की हिस्सेदारी 2010-11 में करीब पांच प्रतिशत थी, जो 2019-20 में चार गुना बढ़कर करीब 21 प्रतिशत हो गयी।

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. Regd Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) 482001

NOTICE

Notice is hereby given that the 4th meeting of the Board of Directors for th

Financial Year 2020-21 (04/2020-21) of the Company will be held on Thursday

10th Day of September 2020, at 17:00, through Audio Visual means, inter alia, to consider, approve and take on record Statement of Unaudited Results

Further in continuation of our intimation on closure of trading window Dated 30tl

June 2020 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading

Regulations, 2015, NSE Circular No. NSE /CML/2019/11 and BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 2nd April, 2019, the trading window in respect of

he Company's securities remain closed for designated persons, their immediate

relatives and the persons with whom they have material financial relationship

The trading window will open after 48 hours of declaration of financial results for the Quarter ended 30th June, 2020.
For Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd

3.92810

15000.00

08 माह

पूचना नहीं दी जावेगी।

Amit Kumar Jain

for the Quarter ended 30th June, 2020 and other business matters

H

भोपाल विकास प्राधिकरण

P-BPL-17-286

रेरा पंजीयन कं.

विज्ञापन क्रं. 4369/राजस्व/भोविप्रा/20

भोपाल, दिनांक 01.09.2020

राजाभोज आवासीय योजना में भूखण्ड उपलब्ध

'अधिकतम ऑफर मूल्य स्वीकार किये जायेंगे तृतीय प्रस्ताव आमंत्रण विज्ञापन

प्राधिकरण की राजाभोज गोदरमउ आवासीय योजना में विभिन्न आकार के विभिन्न श्रेणी के दिनांक 04.08.2020 को खोले गये प्रस्ताव के उपरांत शेष बचे भूखण्डों का विक्रय व्ययन नियम 2018 के नियम 6 (तीन) प्रारूप 'ख' के अनुसार निम्नलिखित तालिका के अन्तर्गत यथा वर्णित भुखण्डों/इकाइयों के व्ययन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव देने हेत् निर्धारित प्रपत्र भोपाल विकास प्राधिकरण की लेखा शाखा से नगद रू० 500/- जमा कर दिनांक 02.09.2020 से दिनांक 15.09.2020 तक कार्यालयीन तमय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रस्ताव निर्धारित धरोहर की राशि का बैंक ड्राफ्ट के साथ निविदाकर्ता उक्त नियत अवधि में किसी भी कार्य दिवस में राजस्व अधिकारी के कक्ष में रखे गये सील बंद बॉक्स में अपने प्रस्ताव डाल सकते है। प्राप्त प्रस्ताव आगामी कार्य दिवस में दिनांक 18.09.2020 को दोपहर 12:30 बजे प्राधिकरण मुख्यालय में उपस्थित प्रस्तावकर्ता के समक्ष खोले जायेंगे।

भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है -

अनु. क्रं.	भूखण्ड/इकाई का विवरण	भूखण्डों/ इकाईयों	क्षेत्रफल वर्गमी. प्रत्येक भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी, यदि	भूखण्ड/ईकाई की आरक्षित	पट्टे लीज पर या भूमि स्वामी	वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे	निक्षेप रकम/ पंजीयन प्रति
		का उपयोग		आरक्षित हो	कीमत प्रति भूखण्ड	अधिकारों पर व्ययन	लीज) के प्रकरणों में	भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूखण्ड क्रं 08 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	अनु. जनजाति	7,13,600	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	71,360
	भूखण्ड क्रं 06 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	सामान्य	7,13,600	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	71,360
2	भूखण्ड क्रं 244, 255, 264,	आवासीय	55.75 वर्गमी.	अनु. जनजाति	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
<u> </u>	302, 320 एवं 225 सेक्टर-सी							
l <u> </u>	भूखण्ड क्रं 317 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	पिछड़ा वर्ग	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
<u> </u>	भूखण्ड क्रं 304 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	अनु. जनजाति	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
l <u> </u>	भूखण्ड क्रं 266 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	प्राधिकरण कर्मचारी	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्रं 207 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी.	स्व. संग्राम सेनानी	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
3	भूखण्ड क्रं 627 एवं 632 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्गमी.	अनु. जनजाति	12,80,024	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
4	भूखण्ड क्रं 409 एवं 413 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्गमी.	अनु. जनजाति	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्रं 407 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्गमी.	स्व. संग्राम सेनानी	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
5	भूखण्ड क्रं 62 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्गमी.	अनु. जनजाति	13,04,516	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,30,452
6	भूखण्ड क्रं 386-ई सेक्टर-बी	आवासीय	91.5 वर्गमी.	अनु. जनजाति	11,71,200	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,17,120
7	भूखण्ड क्रं 387 सेक्टर-सी	आवासीय	135.00 वर्गमी.	अनु. जनजाति	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	भूखण्ड क्रं 395 सेक्टर-सी	आवासीय	135.00 वर्गमी.	पिछड़ा वर्ग	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	भूखण्ड क्रं 384, 386, 392	आवासीय	135.00 वर्गमी.	सामान्य	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	सेक्टर-सी							
8	भूखण्ड क्रं 353 सेक्टर-बी	आवासीय	135.00 वर्गमी.	अनु. जनजाति	19,24,695	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,92,470

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (भ / स) संभाग कटनी (म.प्र.)

E-MAIL-eepwdkatni@mp.nic.in Phone No. 07622-224277 //निविदा आमंत्रण सूचना// कटनी. दिनांक 29/08/2020 निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक ०६ / व.ले.लि. / 2020-21 / मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत व्यवस्थापन के अन्तर्गत ठेकेदार से राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विमाग भोपाल की प्रमावशील दर अनुसूची दिनाक 01.08.2014 एवं समस्त संशोधन सहित (भवन) एवं दिनाक 29.08.2047 (सङ्क) कार्य हेतु निविदायें आनलाईन —Appendix 2.10 निविदा में आमंत्रित की

द्वितीय

392.81

Place: Jabalpur Date: 03.09.2020

जाती है बिड सेल <u>https://mptenders.gov.in</u> पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदायें सम्बन्धित कार्यालय में टेण्डर टाईम शैडयूल के अनुसार खोली जावेगी। क्र. टेण्डर जिला एस.ओ. कार्य कार्य का नाम आमंत्र अनुमानित कार्य की कार्य पूर्ण करने की आई.डी. क्रमांक आर. प्रपत्र का राशि (रू संभावित तिथी राशि लाख में) 10 11 लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी 2020_PWDRB 29.08.1 82.92 0.82920 10000.00 04 माह सड़व वर्षा ऋतु के अन्तर्गत 3 मार्गों में बी.टी. रिन्यूअल का शेष कार्य। (अनुबन्ध क्रमांक 28/डी.एल. 104229 1 कार्य कार्य। (अनुबन्ध क्रमांक 2 / 2019–20) मेसर्स सुबीर कुमार जैन विलायतकला से रेलवे स्टेशन पहुँच मार्ग निर्माण 2020_PWDRE 29.08. तृतीय 1.16670 12500.00 116.67 104230 1 कार्य का शेष कार्य। वर्षा ऋत् पत राप पताप। (अनुबन्ध क्रमांक 01/डी.एल./2018—19) बिहरिया से खदवारा मार्ग निर्माण का शेष कार्य 0.78650 2020_PWDRB 29.08.1 तृतीय 78.65 10000.00 सड़क 06 माह अनुबन्ध क्रमांक 01/डी.एल./2018–19) कार्य वर्षा ऋतु

वर्षा ऋतु 671.05 निविदा की कुल अनुमानित राशि रूपये 671.05 लाख (छः करोड़ इकहत्तर लाख पाँच हजार मात्र) कार्य हेतु निविदा प्रपन्न आन लाईन शुगतान कर क्रम किये जा सकते हैं निविदा प्रपन्न क्रम करने की अंतिम तिथि 15,09.2020 सांय 17.30 बजे तक होगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त विस्तृत विवरण शासन की वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया

कटंगी से बड़ेरा मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 6.20

जायेगा। पृथंक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। विशेष टीप :— पंजीयन से सम्बन्धित दस्ताकेन पत्र अपानन जावना। पूजक र प्रभावार चना प्रकारत गढ़ा क्या जावना। विशेष टीप :— पंजीयन से सम्बन्धित दस्तावेज एवं अमानत राशि मेन्यूवर्ला /चैक लिस्ट एवं शपथ पत्र / आयकर, /पैन नंबर / जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति निविदाकार के (स्वयं के नाम पर) EMD/FDR के साथ दिनाक 16.09.2020 सांय 5.30 तक सरल कमाक 01 से 04 की निविदा कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (मध्यक्षेत्र) जबलपुर में केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। भौतिक लिफाफा नियत समय एवं तिथी में सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त न होने पर आन लाईन निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग कटनी तकनीकी शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार भुगतान हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार होगी:-

भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा ।

भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा। जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम रजिस्ट्री से पूर्व पृथक से देय होगी। 3.

सम्पत्ति फ्री होल्ड पर विक्रय हेतु है।

जीएसटी एवं अन्य लागू टैक्स शासन नियमों के अनुसार देय होगी।

किश्तो का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा -

(1) आवंटन मूल्य का 50 प्रतिशत राशी के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा ।

(2) आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सड़क कार्य पूर्ण होने पर। (3) आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत जल प्रदाय कार्य पूर्ण होने पर।

(4) आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सीवर नेटवर्क शरू होने पर। (5) आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन चार्ज होने पर।

•

(6) शेष 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर समस्त शुल्क सहित। नोट:-उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाने वाले नियम शर्ते आवेदकों को मान्य किया जाना आवश्यक होगा । इस संबंध में पृथक से

ऑफर फार्म का मूल्य 500/- विक्रय ऑफर पद्धति से

का विवरण हमारी वेबसाईट पर उपल bsite : http//www.bda.org.in अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें।

Website: www.bda.org.in

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पेक्स, जोन-१, एम.पी. नगर, भोपाल ४६२०११ (म.प्र.) जनसंपर्क अधिकारी दूरभाष : 0755-2701836/37/38, 255723/2557276 सहायक यंत्री, श्री अरविंद मंडराई मो. 9826597251, उपयंत्री, श्री व्ही.एन. पचौरी मो. 9827069669

संपदा अधिकारी (राजस्व)